



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं- 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29 - दिसम्बर 5, 2003 (अग्रहायण 8, 1925)
No 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 29 - DEC. 5, 2003 (AGRAHAYANA 8, 1925)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा नक़लों से संबंधित अधिवृत्तएं 1109

भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिवृत्तएं 963

भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नक़लों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिवृत्तएं 5

भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिवृत्तएं 1573

भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड 1 क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रिय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियाँ आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रिय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिवृत्तएं *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

1-341G1/2003

भाग II--खण्ड 3 उपखण्ड--(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रिय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप हो उचितता भी शामिल है) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महासेखा परोक्ष, संघ नाह सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत परतार से सम्बन्धित और अश्वीनस्य कार्यवाहियों द्वारा जारी की गई अधिवृत्तएं 1579

भाग III--खण्ड 2--नेट्स कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिवृत्तएं और नोटिस 4787

भाग III--खण्ड 3--पुष्पा मातृकाओं के प्राधिकार के अश्वीन सचवा द्वारा जारी की गई अधिवृत्तएं *

भाग III--खण्ड 4--विभिन्न अधिवृत्तएं जिनमें सांविधिक नितियों द्वारा जारी की गई अधिवृत्तएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 9725

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 423

भाग V--अपेक्षों और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दायित्व वाला समुदाय *

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1109	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	963	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1579
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1573	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	4787
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9725
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	423
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)			

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा० II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का I) की धारा 209 क की उपधारा (I) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० एल० कुमावत, सहायक निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग : कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2003

सं० आर-22011/2/2003-ओआर-I—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हार्डड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति का एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है और 23-9-2003 से तीन साल की अवधि के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत उसके विस्तार की स्वीकृति दी जाती है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

(गैर-सरकारी)

- डा० आर० ए० माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सदस्य

(गैर-सरकारी)

- डा० एस० वरदराजन, पूर्व मुख्य परामर्शदाता, योजना आयोग, नई दिल्ली
- प्रो० के० वासुदेव, पूर्व प्रधान, रसायन इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
- प्रो० डी० बी० सिंह, पूर्व उपकुलपति, रुड़की विश्व-विद्यालय
- डा० एस० जे० चोपड़ा, पूर्व निदेशक (तकनीकी), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

- प्रो० के० एस० गांधी, रसायन इंजीनियरी विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर

- डा० आशुतोष शर्मा, प्रधान, रसायन इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

- श्री ए० के० अरोड़ा, पूर्व निदेशक (रिफाइनरीज), इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लि०

- डा० ए० के० भटनागर, पूर्व निदेशक (अनुसंधान और विकास) इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लि०

पदेन सदस्य

- डा० एन० आर० राजे, निदेशक (अनुसंधान और विकास), इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लि०

- श्री बी० एस० नेगी, निदेशक (योजना), गेल

- डा० एस० शिवराम, निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोग-शाला, पुणे

- श्री ए० सोनी, निदेशक (तकनीकी), इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली

- निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

- डा० के० बी० राघवन, निदेशक, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद

सदस्य—सचिव

- डा० के० एस० बलरामन, कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली

सदस्य

- डा० सुमित भादुड़ी, प्रधान, अनुसंधान और विकास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०, मुम्बई

2. सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (रिफाइनरीज)/निदेशक (प्रचालन), सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियाँ और सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड, इस समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित होंगे। अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति(यों) को इस समिति की बैठक में या समिति की सहायता हेतु उपस्थित होने के लिए भी आमंत्रित कर सकेंगे।

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

“ईग्रनों और रसायनों के रूप में प्रयोग करने के लिए हाईड्रोकार्बन कच्चे माल की अधिकतम संसाधन प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों तथा उपायों पर सलाह देना ताकि उनको कार्यान्वित किया जा सके।”

4. समिति आवश्यकता अनुसार बैठके करेगी किन्तु एक-तिमाही में कम से कम एक बैठक जरूर होगी और वह पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को समय-समय पर उचित सिफारिशें करेगी।

5. उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र समिति को अपेक्षित सचिबीय सहायता प्रदान करेगा।

6. वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हर बैठक में भाग लेने हेतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को 1000/- रुपये (एक हजार मात्र) का मानदेय दिया जाएगा। तेल उद्योग विकास बोर्ड, भारत सरकार गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का खर्च वहन करेगा। केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सरकारी कर्मचारियों/प्रतिनिधियों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता खर्च संबंधित विभागों/उपक्रमों द्वारा वहन किया जाएगा। समिति के अन्य खर्च तेल उद्योग विकास बोर्ड वहन करेगा।

7. अध्यक्ष-वैज्ञानिक सलाहकार समिति उन व्यावसायिकों/तकनीकी विशेषज्ञों को उचित/सांकेतिक मानदेय के भुगतान की सिफारिश कर सकता है :—

(क) जिन्हें वैज्ञानिक सलाहकार समिति को प्रस्तुत प्रस्तावों का पुनरीक्षण कर उन प्रस्तावों के तकनीकी गुणवत्तुओं पर अपना-अपना मत प्रकट करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) जिन्हें समिति की बैठक में तेल उद्योग संबंधी विषयों पर तकनीकी चर्चा करने या महत्वपूर्ण निर्देशों की व्यवस्था हेतु आमंत्रित किया गया हो।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति, राज्य सरकारों, संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासकों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रेणुका कुमार
अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर, 2003

संकल्प

सं० : 12015/1/2001-हिंदी—सरकार की राजभाषा नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रावधान है। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में तैयार किया जाना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अपने कार्यों से संबंधित विषय-वस्तुओं पर लेख प्रकाशित करे। इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्युत संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक नकद पुरस्कार योजना 1 जनवरी, 2003 से चलाने का निर्णय लिया है जिसका नाम “केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना” है।

केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम

1. नाम: इन विनियमों का नाम “केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम” है।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(i) योजना से अभिप्राय है “विद्युत संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की पुरस्कार योजना”।

(ii) “पुस्तक” से आशय प्रकाशित पुस्तक से है।

(iii) “विनियम” से अभिप्राय है : “केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम”।

(iv) “वर्ष” से अभिप्राय है : “कैलेंडर वर्ष जो कि 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक माना जाएगा”।

3. उद्देश्य : योजना का उद्देश्य विद्युत के विभिन्न विषयों के बारे में उच्च स्तर के तकनीकी साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ, तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है।

4. पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	: रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये)
द्वितीय पुरस्कार (एक)	: रु० 30,000/- (तीस हजार रुपये)
तृतीय पुरस्कार (एक)	: रु० 20,000/- (बीस हजार रुपये)

नकद पुरस्कार के साथ प्रमाण-पत्र और स्मृति चिह्न दिया जाएगा।

5. अवधि : इस योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक एक कैलेंडर वर्ष की होगी और पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए उस पुस्तक पर विचार किया जाएगा जिसका प्रकाशन उसी वर्ष के दौरान हुआ हो। यह पुरस्कार योजना 1 जनवरी, 2003 से लागू है।

6. पुरस्कार के लिए पात्रता एवं शर्तें :

1. पुस्तक की विषय-वस्तु विद्युत क्षेत्र से संबंधित हो।
2. इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी या किसी शैक्षणिक संस्थान/विश्व-विद्यालय में कार्यरत व्यक्ति भाग ले सकता है।
3. यदि एक पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
4. पहले से पुरस्कृत पुस्तकों को इस योजना में पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. मूल्यांकन समिति :

1. एक मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्टियों पर विचार किया जाएगा जिसका गठन अध्यक्ष, के० वि० प्र० के अनुमोदन से किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण : अध्यक्ष

संयुक्त सचिव (आर एंड आर)

विद्युत मंत्रालय : सदस्य

अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी

शब्दावली आयोग : सदस्य

एन०टी०पी०सी०/एन०एच०पी०/

पावरग्रिड (कारपोरेट कार्यालय) से

निदेशक (परियोजना) : दो सदस्य

सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण : सदस्य सचिव

2. मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के अपने मानदण्ड निश्चित करेगी।
3. मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और सभी प्रकार से बाध्यकर होगा। तथापि मूल्यांकन समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा। किसी एक वर्ष में मंत्रालय इस आशय का निर्णय ले सकता है कि कोई भी प्रविष्टि पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं है अथवा पुरस्कारों की संख्या तीन से कम होगी।
4. मूल्यांकन समिति के सदस्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे।
5. मूल्यांकन समिति के सदस्य नियमानुसार दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता पाने के पात्र होंगे।

8. सामान्य :

1. पुरस्कार के निर्णय की सूचना औपचारिक पत्र द्वारा दी जाएगी।
2. पुरस्कार निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित होने के लिए पुरस्कार विजेता नियमानुसार दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।
4. पुरस्कार के लिए भेजे जाने वाली प्रत्येक पुस्तक के साथ उसके लेखक द्वारा पुस्तक की मौलिकता से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
5. पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कॉपीराइट अधिकार पुरस्कार प्राप्त करने पर भी बना रहेगा।

9. प्रविष्टि भेजने की विधि :

1. प्रविष्टियां संलग्न प्रपत्र में भेजी जाएंगी।
2. पुरस्कार के लिए प्रविष्टि की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी होंगी, जो वापस नहीं की जाएंगी।
3. एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियां विचारार्थ भेज सकता है, बशर्ते कि उनकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हों।
4. प्रविष्टियां निम्न पते पर परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुंच जानी चाहिए :—

सचिव,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
सेवा भवन, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

प्रपत्र

केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम

1. पुस्तक का नाम
2. पुस्तक का विषय
3. (i) लेखक/लेखकों का नाम
- (ii) पूरा पता
- (iii) दूरभाष संख्या
4. (i) प्रकाशक का नाम
- (ii) प्रकाशक का पूरा पता
- (iii) मूल्य
- (iv) प्रकाशन वर्ष
- (v) कॉपीराइट किसके अधीन है

5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हाँ, तो कृपया पूरा व्योरा दें :—

(क) किस वर्ष में भेजी गई

(ख) किसे भेजी गई (पूरा बता)

(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो उसका व्योरा दें

6. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि

(i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।

(ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप में हिन्दी में लिखी गई है।

(iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अन्तर्गत प्रविष्ट करने से कॉपीराइट अधिनियम (यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम केन्द्रीय विद्युत पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे।

लेखक/लिखकों के हस्ताक्षर

नोट :

1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजा जाए।

2. लेखक द्वारा पुस्तक का विविध हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए।

स्थान

दिनांक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकलन की प्रति सभी राज्य सरकारों और सब राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकलन को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 5th November 2003

No. A-42011/21/2002-Ad.II.—In exercise of powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise Shri M. L. Kumawat, Assistant Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 17th October 2003

RESOLUTION

No. R-22011/2/2003-OR-I.—The Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is hereby reconstituted and granted extension for a period of three years with effect from 23-9-2003 on the terms and conditions specified hereunder. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman (Non-Official)

1. Dr. R. A. Mashelkar, Director General, Council for Scientific and Industrial Research.

Member (Non-Official)

2. Dr. S. Varadarajan, Ex-Chief Consultant, Planning Commission, New Delhi.
3. Prof. K. Vasudeva, Ex-Head of Chemical Engineering Department, Indian Institute of Technology, New Delhi.

4. Prof. D. V. Singh, Ex-Vice-Chancellor, University of Roorkee.

5. Dr. S. J. Chopra, Ex-Director (Tech.), EIL.

6. Prof. K. S. Gandhi, Chem. Engg. Dept. IISc., Bangalore.

7. Dr. Ashutosh Sharma, Head Chem. Engg. Dept. IIT, Kanpur.

8. Shri A. K. Arora, Ex-Director (Refineries), IOCL.

9. Dr. A. K. Bhatnagar, Ex-Director (R&D), IOCL.

Member Ex-officio

10. Shri N. R. Raje, Director (R&D), IOCL

11. Shri B. S. Negi, Director (Planning), GAIL

12. Dr. S. Sivaram, Director, National Chemical Laboratories, Pune

13. Shri A. Soni, Director (Tech), Engineers India Limited, New Delhi

14. Director, Indian Institute of Petroleum, Dehradun

15. Dr. K. V. Raghavan, Director, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad

Member Secretary

16. Dr. K. S. Balaraman, Executive Director, Centre for High Technology, New Delhi

Member

17. Dr. Sumit Bhaduri, Head-R&D, Reliance Industries Limited, Mumbai

2. Secretary, Additional Secretary and Joint Secretaries in the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Chairman/

CMD/Director (R)/Director (O) of Public Sector Oil Companies and Secretary, OIIB will be permanent invitees to the Committee meetings. The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :—

"To advise on policies relating to Science and Technology and measures to implement them to ensure optimum processing of hydrocarbon raw material for use as fuels and chemicals".

4. The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter and will make suitable recommendation to the Ministry of Petroleum and Natural Gas for time to time.

5. The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Centre for High Technology.

6. An honorarium of Rs. 1000/- (one thousand only) will be paid to the non-official members of the Committee for participating in each SAC meeting. The expenditure on TA/DA of the non official members will be met by the Oil Industry Development Board (OIDB), Government of India. TA/DA of Government Officials/representatives of Central Public Sector Undertakings, will be met by the concerned Department/Undertaking(s). Any other expenditure on the Committee will be borne by OIIB.

7. The Chairman —SAC may recommend payment of suitable/nominal honorarium to professional/technical experts who are :—

- (a) requested to review proposal submitted to SAC, for giving their opinion on technical merit of the proposals.
- (b) Invited in the Committee's meetings, to deliver technical talks or to provide important inputs on issues of relevance to the Oil Industry.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RENUKA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 14th November 2003

RESOLUTION

No. 12015/1/2001-Hindi.—The Official Language Policy of Govt. of India, provides for encouragement and incentive, in accordance with directives of the Deptt. of Official Language. Scientific & Technical literature should be prepared in Hindi and offices of Central Govt. should publish articles on the subjects related to their work. Keeping in view these guidelines to encourage original book writing in Hindi on subjects related to Electric, Power, the Ministry of Power, Central Electricity Authority have decided to introduce a Cash Award Scheme, namely, "Kendriya Vidyut Pustak Lekhan Puraskar Yojna" w.e.f. 1st January, 2003.

Regulations for Kendriya Vidyut Pustak Lekhan Puraskar Yojna

1. Title : These regulations may be called—"Regulation for Kendriya Vidyut Pustak Lekhan Puraskar Yojna."

2. Definitions : In these regulations unless there is something contrary to the context is desired :—

1. "Scheme" means "the award scheme of Central Electricity Authority to encourage original book writing in Hindi on subjects pertaining to Electricity".
2. "Book" means a published book.
3. "Regulation" means "Regulations of Kendriya Vidyut Pustak Lekhan Puraskar Yojna".

4. "Year" means "calendar year commencing from 1st January and ending on 31st December".

3. Objective : The objective of this scheme is to encourage creation of high standard Technical literature in Hindi on different branches of Electricity as well as to promote the usage of Hindi in technical field.

4. Awards :

First Prize (one) Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand)

Second Prize (one) Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand)

Third Prize (one) Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand)

Certificate and a memento will be given alongwith cash prizes.

5. Period : The period of the scheme will be calendar year from 1st January to 31st December, and it will be implemented every year. Books published during the year will be considered for awards. This scheme is in operation w.e.f. 1st January, 2003.

6. Eligibility & Conditions for Awards :

1. The subject matter of the book should be related to power sector.

2. A citizen of India, officer/employee working in offices of Central/State Govt. or person working in any educational Institution/University may take part in this Scheme.

3. In case a book selected for an award is written by more than one writer the award money will be distributed among them equally.

4. Books which might have received any other award will not be considered for award under this scheme.

7. Evaluation Committee :

1. An Evaluation Committee which will be constituted with the approval of Chairman, CEA will consider the entries.

This Committee will have following members :—

Chairman, Central Electricity Authority	Chairman
Joint Secretary (R&R) M/o Power	Member
Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology	Member
Director (Project), NTPC/NHPC/Powergrid (Corporate Office)	Two Members
Secretary, CEA	Member-Secretary

2. The Evaluation Committee will set its own criterion for evaluation.

3. The decision of the Evaluation Committee will be final and binding in all respects. However, keeping in view the decision of the Evaluation Committee the decision of M/o Power will be final and binding. The Ministry of Power may take a view to the effect that in a particular year none of the entries may qualify for an award or that the number of Awards may be less than three.

4. The members of the Evaluation Committee will be eligible for the honorarium prescribed by the Central Electricity Authority.

5. The members of the Evaluation Committee will be entitled to get travelling allowance and daily allowance as per rules.

8. General :

1. Decision regarding the award will be intimated through a formal letter.

2. No correspondence will be entertained regarding procedure for deciding awards.

3. Award winners will be entitled for D.A./T.A. as per rules to attend Award distribution function.

4. It is essential to furnish a certificate with each entry that the book in original is written by the author.

5. The power of copyright will remain with the author even after receipt of the award.

9. Procedure for sending the entry :

1. Entries shall be sent in the proforma Annexed.
2. Three copies of each book for entry under this scheme will be sent and they will be non-returnable.
3. A writer may send more than one entry for consideration provided that their subject matters are different.
4. The entries should reach the following address latest by the date indicated in the circular/advertisement :—

Secretary,
Central Electricity Authority,
Sewa Bhawan,
R. K. Puram,
New Delhi-110066

PROFORMA

Regulations for Kendriya Vidut Pustak Lekhan Puraskar Yojna

1. Title of the book
2. Subject of the book
3. (i) Name of the writer/writers
- (ii) Full Address
- (iii) Telephone No.
4. (i) Name of the publisher
- (ii) Full Address of the publisher
- (iii) Price
- (iv) Year of publishing
- (v) Copyright is with whom
5. Had the book ever been sent for some other competition? If yes, please give full detail thereof :
 - (a) When sent
 - (b) To whom sent (complete address)

(c) Had any award been given? If yes, give full details.....

6. I/We certify that :

- (i) I/We am/are Indian citizen(s)
- (ii) The book has been written originally in Hindi by me/us.
- (iii) The copyright of any other person is not violated under the copyright Act (as amended), 1997 by entering my/our books in this scheme.

I/We promise to abide by the provisions of the regulations of Kendriya Vidut Pustak Lekhan Puraskar Yojna.

Signature of Author/Authors

Note :—

1. This form duly filled in alongwith the three copies of the book may be sent to : "The Secretary, Central Electricity Authority, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi-110066."
2. The gist of the book duly signed by the Author may also be enclosed.

Place

Date

ORDER

Ordered that copy of this resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries and Departments of the Govt. of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for public information.

AJAY SHANKAR
Joint Secy.

भारत सरकार मद्रास, फरीदाबाद द्वारा मद्रास
प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003